

## माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, प्रयागराज

सत्र 2021–22

कक्षा—12

### विषय कम्प्यूटर

कोविड—19 के दृष्टिगत मात्रशिवाय, उ0प्र0 द्वारा संचालित पाठ्यक्रम को लगभग 30% तक कम करने के पश्चात् शेष पाठ्यक्रम का सत्र 2021–22 हेतु अध्यायवार मासिक शैक्षिक पंचांग—

क्र0 सं0	माह	पाठ्यक्रम
1	मई (20 मई से)	<u>1. कम्प्यूटर साफ्टवेयर एवं प्रोग्रामिंग</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>● साफ्टवेयर से परिचय</li> </ul>
2	जून	<u>2. प्रोग्रामिंग</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>● एल्गोरिथम, फलोचार्ट, स्यूडोकोड, डिसीजन टेबल</li> </ul>
3	जुलाई	<u>3. प्रोग्रामिंग भाषाएं</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>● लो लेविल लैंग्वेज़: मशीन एवं एसेम्बली</li> <li>● हाई लेविल लैंग्वेज़, कम्पाइलर एवं इंटरप्रेटर</li> <li>● 4 GL (4 जेनरेशन लैंगुएज़)</li> </ul>
4	अगस्त	<u>4. एच0टी0एम0एल0 प्रोग्रामिंग</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>● वेबपेज एवं वेबसाइट्स की अवधारणा</li> <li>● HTML से परिचय एवं उनका स्वरूप</li> <li>● HTML टैग्स द्वारा साधारण वेबपेज का निर्माण</li> <li>● वेबपेज में टेक्स्ट को फार्मेट एवं हाईलाइट करना</li> </ul>
5	सितम्बर	<u>5. आज्जेक्ट ओरियेन्टेड प्रोग्रामिंग (OOP)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>● आज्जेक्ट ओरयेन्टेड प्रोग्रामिंग से परिचय</li> <li>● OOP की आवश्यकता, OOP के लक्षण एवं तत्व,</li> <li>● क्लास, आज्जेक्ट, इनहेरिटेन्स</li> <li>● ऑपरेटर ओवलोडिंग आदि से परिचय,</li> <li>● स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एवं आज्जेक्ट ओरियेन्टेड प्रोग्रामिंग में अन्तर</li> </ul>
6	अक्टूबर	<u>6. C++ प्रोग्रामिंग (एडवान्स)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>● क्लास एवं आज्जेक्ट</li> <li>● कन्स्ट्रक्टर एवं डिस्ट्रक्टर्स</li> <li>● फंक्शन (Functions)</li> <li>● फंक्शन ऑवरलोडिंग</li> </ul>
7	नवम्बर	<u>6. C++ प्रोग्रामिंग (एडवान्स)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ऐरे (Array)</li> <li>● अद्वार्षिक लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन</li> </ul>
8	दिसम्बर	7. डाटा बेस कान्सेप्ट

		<ul style="list-style-type: none"> <li>रिलेशनल डाटाबेस</li> <li>स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज (SQL)कार्य</li> <li>डाटाबेस की अवधारणा</li> </ul>
9	जनवरी	<ul style="list-style-type: none"> <li>मॉडल प्रश्न-पत्र को हल कराना एवं कठिनाई निवारण</li> <li>वार्षिक प्री बोर्ड प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन</li> </ul>
10	फरवरी	प्री बोर्ड लिखित परीक्षा का आयोजन
11	मार्च	बोर्ड परीक्षा का आयोजन

कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन- पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त विषय विशेषज्ञों की समिति निम्नवत् 30 प्रतिशत पाठ्यक्रम कम किये जाने की अनुशंसा की गयी है:-

#### इकाई 1— कम्प्यूटर साफ्टवेयर एवं प्रोग्रामिंग

- ऑपरेटिंग सिस्टम एवं प्रोग्रामिंग
- लाइनेक्स एवं उसके विभिन्न स्वरूप

#### इकाई 2— प्रोग्रामिंग

- कम्प्यूटर समर्थ्या— समाधान तकनीकी के रूप में प्रोग्रामिंग के विभिन्न चरण

#### इकाई 3— प्रोग्रामिंग भाषायें

#### इकाई 4— एच०टी०एम०एल० प्रोग्रामिंग

- बेव पेज में हाइपर लिंक बनाना

#### इकाई 6— C++ प्रोग्रामिंग (एडवान्स)

- Inheritance
- Exception Handling का परिचय
- Pointers का परिचय

#### इकाई 7— डाटाबेस कन्सेप्ट, नार्मलाइजेशन